

निस्कार्ट फादर एगनल स्कूल, वैशाली

हिंदी अभ्यास पत्रिका -२०१७-१८

कक्षा - 6

प्रश्न 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

दोहे अर्थात दो पंक्तियों में लिखा जाने वाला और चौपाई अर्थात चार पंक्तियों में लिखा जाने वाला छंद या पद्य । भक्तिकालीन कवियों में कबीर, रहीम, सूरदास, तुलसीदास आदि ने अपने साहित्य के साथ-साथ दोहों की भी रचना दी । वह युग ऐसा था, जब अनेक प्रकार के धार्मिक मत लोगों को भ्रमित कर रहे थे और धर्म के नाम पर पाखंड और अनेक कुरीतियाँ पनप रही थी । ऐसे में आवश्यकता थी की कोई सीधे सरल शब्दों में साधारण जनता को सही मार्ग दिखाए । यह कार्य भक्तिकालीन कवियों ने अपने हाथों में लिया । आम लोगों को समझाने के लिए एक ऐसी विधा की आवश्यकता थी जो जीवन का मर्म समझा सके और मर्म को छू ले । यह काम दोहों ने किया । कबीर के दोहे आज भी जन-जन की जुबान पर हैं । कबीर केवल महान कवी ही नहीं, बल्कि अपने समय के सबसे बड़े और सच्चे समाज-सुधारक और युग-निर्माता थे । कबीर ने हिन्दू और मुस्लिमान दोनों की आलोचना की और समाज में जागृति नया मन्त्र फूँका । उनके दोहे इतने प्रचलित हुए कि लोग उन्हें बातचीत में भी शामिल करने लगे । इसका मुख्य कारण इनका लघु रूप और सरल भाषा थी । अधिकतर दोहे ज्ञान-अज्ञान, नीति, परोपकार, आपसी परम से संबंधित हैं । इन जीवन-मूल्यों की आवश्यकता हर युग में रहेगी ।

- i. भक्ति काल के प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखें ।
- ii. कबीर के दोहों के प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखें ।
- iii. गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखें तथा शीर्षक चुनाव का कारण भी स्पष्ट कीजिए ।
- iv. 'प्रचलित' शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूलशब्द अलग कीजिए ।
- v. कबीर किस युग के कवि थे ।

प्रश्न 2 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

पुजारी ! भजन, पूजन, साधन, आराधना

द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है ।

आँखे खोलकर जरा देख तो सही

तेरा देवता देवालय में नहीं है ।

जहाँ मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं

तेरा देवता वही चला गया है !

मुक्ति! मुक्ति अरे कहाँ है?

अपने सृष्टि-बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं ।

ध्यान-पूजा को किनारे रख दे

फूल की डाली को छोड़ दे

वस्त्रों को फटने दे, धूलि-धूसरित होने दे

उनके साथ काम करते हुए पसीना बहाने दे ।

- i. 'कहाँ मिलेगी मुक्ति' से कवि का क्या अभिप्राय है ?
- ii. सच्ची उपासना कैसे संभव है ?
- iii. कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए ।
- iv. 'ध्यान-पूजा' में कौन-सा समास है ।

- 11 दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए ।

i. कन्या भ्रूण-हत्या

संकेत बिंदु - जननी का महत्त्व, समाज का दृष्टिकोण, विचारधार में परिवर्तन की आवश्यकता ।

ii. विज्ञान के चमत्कार

संकेत बिंदु - आधुनिक युग-विज्ञान का युग, आवश्यकता आविष्कार की जननी, प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान से संबंधित, रोगों पर नियंत्रण, विज्ञान का दुरुपयोग ।

iii. आधुनिक नारी और नौकरी

संकेत बिंदु - आधुनिक नारी, नारी की कार्य-क्षमता, नौकरी करने का कारण, वास्तविका आधुनिकता ।

प्रश्न 12 - आपके चाचा जी दोनों बेटों के विदेश चले जाने से स्वयं को बहुत अकेला महसूस करते हैं | उन्हें सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखिए |

प्रश्न 13 - नवी कक्षा में प्रवेश हेतु विषय चयन के संबंध में दो विद्यार्थियों के मध्य हुए संवाद को लिखिए।

प्रश्न 15 - दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन कीजिए |



कक्षा 6 वसंत

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न1) लड़कियों ने नागराजन से अलबम माँगने किसे भेजा और क्यों?

प्रश्न2) राजप्पा की अलबम की शान क्यों कट गई थी?

प्रश्न3) राजप्पा नागराजन के घर क्या सोच के गया था?

प्रश्न4) लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन-कौन से थे?

प्रश्न5) लक्ष्मीबाई को 'झाँसी की रानी' क्यों कहा जाता था?

प्रश्न6) पेशवा को कहाँ कैद किया गया था?

प्रश्न7) लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है?

प्रश्न8) पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा को पत्र क्यों लिखा करते थे?

प्रश्न9) नेहरू जी ने संसार को पुस्तक क्यों कहा है?

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न1) नागराजन ने अपना अलबम सबको कब और कैसे दिखता था?

प्रश्न2) राजप्पा का अलबम कौन खरीदना चाहता था? उसने उसे क्या जवाब दिया?

प्रश्न3) राजप्पा के अलबम देने पर नागराजन विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा था?

प्रश्न4) अंग्रेजों के भारत के किन-किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था?

प्रश्न5) रानी लक्ष्मीबाई की तुलना बंदेलों से किस प्रकार की और क्यों?

प्रश्न6) क्रांति की आग भारत में किस प्रकार फैली?

प्रश्न7) गोल चमकदार पत्थर के जन्म से उसकी अब तक की यात्रा का पाठ के आधार पर वर्णन करें |

प्रश्न8) लाखों-करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी?

प्रश्न9) यदि हमें पढ़ना आ जाए तो रोड़ा भी पुस्तक का पृष्ठ कैसे बन जाता है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न1) राजप्पा ने अपने अलबम की टिकटों को किस प्रकार एकत्रित किया? विस्तार से लिखिए |

प्रश्न2) सन् 1857 के आस-पास देश में राजनैतिक परिस्थितियाँ कैसी थीं?

प्रश्न3) क्या यह संसार सचमुच में पुस्तक है या नहीं? ऐसा क्यों कहा गया है? अपनी राय दो |